

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 1966/अग्रहायण 23, 1888

No. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 1966/AGRAHAYANA 23, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December 1966

S.O. 3872.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 5 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 56/66 (S.O. 3367), dated the 1st December, 1966, namely:—

- (i) in para 1(b) of the said notification, for the words “and (vii) the Samyukta Socialist Party”, the words “(vii) the Samyukta Socialist Party and (viii) the Republican Party of India” shall be substituted; and
- (ii) in the table appended to the said notification, after the existing entry 4, in column 2 against item 22, Andaman and Nicobar Islands, the following entry shall be inserted, namely:—
“5. Rising sun”.

[No. 56/66-II.]

By Order,

PRAKASH NARAIN, Secy.

(1689)

